

तुरंत रिलीज के लिए

**ए.एम.ओ. 2021 वर्चुअल कान्फ्रेंस में सिटी ऑफ ब्रैम्पटन:  
बहाली, स्वास्थ्य और भविष्य की खुशहाली के लिए हिमायत**

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (16 अगस्त, 2021) – 16 से 18 अगस्त तक, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के द्वारा एक प्रतिनिधि मंडल, 2021 एसोसिएशन ऑफ म्युनिसिपल्टीज (ए.एम.ओ.) वर्चुअल कान्फ्रेंस (2021 Association of Municipalities (AMO) Virtual Conference) में हिस्सा लेगा। मेयर पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown) के नेतृत्व में, काउंसिल के मेम्बर और सिटी के अधिकारी, ब्रैम्पटन के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में पूरे प्रांत में, सरकारी मंत्रियों, अधिकारियों और मुख्य स्टेकहोल्डर्स के साथ जुड़ेंगे।

चूंकि हम लगातार कोविड-19 (COVID-19) महामारी से बहाली की ओर बढ़ रहे हैं, प्राथमिकताओं में बहाली और हमारी कम्युनिटी के संपूर्ण स्वास्थ्य और तंदरुस्ती को उजागर किया जाएगा। इसमें शामिल है:

- **क्रियाशील ट्रांसपोर्टेशन** – साइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और फंडिंग सहित, क्रियाशील ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट्स का विस्तार करना और उन्हें आगे बढ़ाना
- **जलवायु संबंधी बदलाव और पब्लिक हेल्थ** – निवेश करने के लिए प्रोविंसियल सरकार के साथ साझेदारी और स्वस्थ वातावरण, अर्थव्यवस्था और कम्युनिटी की सहायता के लिए नीति में बदलाव
- **सेकंड यूनिटें** – किफायती घरों के विकल्पों की कमी पर ध्यान देना और बिल्डिंग कोड (Building Code) में सुधार की हिमायत करना
- **आर्थिक विकास और बहाली** – आर्थिक बहाली के द्वारा निवेश और सहायता प्रदान करना और ब्रैम्पटन के इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट (Innovation District) को आगे बढ़ाना और उसमें वृद्धि करना
- **ऑटो बीमा** – किफायत में सुधार और बिल 42 (Bill 42) पास करके कानूनी प्रक्रिया को तेज़ करते हुए, ओनटैरियो के खराब ऑटो बीमा सिस्टम में सुधार की हिमायत करना
- **कम्युनिटी सुरक्षा की हिमायत** – कम्युनिटी की सुरक्षा के लिए नए और मौजूदा संसाधनों की पहचान करते हुए, बढ़ी हुई मानसिक स्वास्थ्य सहायता और पील हाउसिंग मास्टर प्लान (Peel Housing Master Plan) के लिए बढ़ी हुई फंडिंग
- **पोस्ट-सेकंडरी अवसर** – ब्रैम्पटन यूनिवर्सिटी एक्ट (Brampton University Act) पास करके, BramptonU की मौजूदगी को कानूनी रूप देना और ब्रैम्पटन में रायरसन (Ryerson) मेडिकल स्कूल के लिए प्लानिंग प्रक्रिया को आगे बढ़ाना
- **हाउसिंग** – निवासियों और अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित और किफायती रिहायश का पता लगाने के लिए समाधान और प्रोग्राम विकसित करना और सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले प्रभावों के संबंध में समीक्षा
- **हेल्थ केयर** – कई तरह की हेल्थ सेवाओं के लिए तुरंत फंडिंग, पील मेमोरियल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड हेल्थ एंड वेलनेस (Peel Memorial Centre for Integrated Health and Wellness) का फेज 2 का विकास और व्यापक कैंसर केयर सेंटर (Cancer Care Centre) के लिए ओस्लर (Osler) के स्टेज 1 प्रस्ताव को मंजूरी

- **ट्रांज़िट** – महामारी से बहाली के लिए ट्रांज़िट ऑपरेशन्स के लिए और प्री-कोविड-19 लेवल्स के लिए राइडरशिप को सुरक्षित रूप से बढ़ाने के लिए फंडिंग
- **हायर-ऑर्डर ट्रांज़िट** – जारी पहलकदमियों को आगे बढ़ाना जारी रखना; एल.आर.टी. (LRT extension) का विस्तार, क्वीन-स्ट्रीट-हाईवे 7 बी.आर.टी. (Queen Street-Highway 7 BRT) स्टडी और ऑल-डे, टू-वे गो ट्रेन (GO Train) सर्विस

सिटी की मुख्य प्राथमिकताओं के बारे में अधिक जानने के लिए, [यहां \(here\)](#) क्लिक करें।

## हवाले

“पिछले वर्ष ने हमें कम्युनिटी, उनकी क्षमताओं और सहायता के लिए उनकी जरूरतों के बारे में बहुत कुछ सिखा दिया है। चूंकि हम कोविड-19 महामारी के दौरान हमारे स्वास्थ्य और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, इसके साथ ही हम प्रभावी, खुशहाल भविष्य के लिए भी प्लानिंग कर रहे हैं – ऐसा ब्रैम्पटन, जो सफलता, निवेश और वृद्धि की मिसाल हो। मैं इस वर्ष प्रांत के द्वारा की गई सहायता और हमारे शहर में सुधार के लिए उनकी प्रतिबद्धता के लिए उनका शुक्रगुजार हूं। मैं हमारे प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ते देखने और ब्रैम्पटन के लिए हमारे दृष्टिकोण को सफल होते देखने के लिए और साझेदारी जारी रखने के लिए, इस गति को लेकर उत्साहित हूं।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की टीम ने, महामारी के दौरान मजबूती और स्थिरता दर्शाना जारी रखा है। उन्होंने शहर को मजबूत बनाने के लिए प्रोजेक्ट्स और पहलकदमियों को आगे बढ़ाते हुए, हमें सफलता की स्थिति में लाते हुए और गतिशील आर्थिक बहाली करते हुए, वह सहायता प्रदान की है, जिस पर कम्युनिटी निर्भर है। हमारे प्रोविंसियल साझेदारों के साथ सहयोग, ब्रैम्पटन के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। मैं कान्फ्रेंस के दौरान हमारे सहयोगियों के साथ जुड़ने और इस शहर के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों को आगे भेजने के लिए उत्साहित हूं।”

- डेविड बैरिक् (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 700,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर और जानें।

**मीडिया संपर्क**

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)